

# जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया

विज्ञापन सं:—01 / 2024

- माननीय बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पत्रांक संख्या –1507 दिनांक–28.08.2024 के आलोक में, लीगल एंड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम (L.A.D.C.S) खगड़िया (जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया) में संविदात्मक रूप से कार्यालय सहायक/लिपिक, रिसेप्सनिस्ट–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (टंकक), कार्यालय अनुसेवक (मुंशी/परिचारक) के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति प्रारंभिक रूप से वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 के लिए की जायेगी तथा सक्षम प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार किया जा सकेगा।
- रिक्तियों की विवरणी निम्नांकित है :—
  - कार्यालय सहायक/लिपिक— पदों की संख्या – 01
  - रिसेप्सनिस्ट–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (टंकक)— पदों की संख्या – 01
  - कार्यालय अनुसेवक (मुंशी/परिचारक) – पदों की संख्या – 02
- शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय :—विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	पदनाम	मानदेय	वांछित योग्यता
क	कार्यालय सहायक/लिपिक	20,000/-प्रतिमाह	<ol style="list-style-type: none"><li>शैक्षणिक योग्यता—स्नातक</li><li>कंप्यूटर में दक्षता</li><li>हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में दक्षता</li><li>हिंदी एवं अंग्रेजी श्रुतिलेखन का ज्ञान</li><li>संचिका रख-रखाव का ज्ञान</li></ol>
ख	रिसेप्सनिस्ट–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (टंकक)	19,000/-प्रतिमाह	<ol style="list-style-type: none"><li>शैक्षणिक योग्यता—स्नातक</li><li>कंप्यूटर में दक्षता</li><li>उत्कृष्ट मौखिक एवं लिखित पत्राचार का ज्ञान</li><li>दूरसंचार प्रणाली पर काम करने की क्षमता (दूरभाष, फैक्स मशीन, स्वीच बोर्ड इत्यादि)</li><li>हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में दक्षता</li><li>वडे और डाटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी</li></ol>
ग	कार्यालय अनुसेवक (मुंशी/परिचारक)	13,000/-प्रतिमाह	<ol style="list-style-type: none"><li>मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष।</li><li>साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए।</li></ol>

- सामान्य निर्देश :—

- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा अच्छे चरित्र का हो।
- आवेदक जो सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में है को छोड़कर शेष आवेदक का स्थानीय नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है।
- परीक्षा शुल्कः—किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

- (च). यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित योग्यता नहीं रखता है अथवा उसके द्वारा कोई गलत सूचना दी गई है अथवा छिपाने की कोशिश की गई है तो उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (छ). उपरोक्त सभी पद पूर्णतः संविदा पर आधारित हैं तथा यह संविदा 01 वर्ष के लिए मान्य होगा और अभ्यर्थी सरकारी सेवक के रूप में भविष्य में दावा नहीं करेंगे।
- (ज). प्राधिकार के द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (झ). उम्मीदवार भारत का नागरिक हो “मानसिक य शारीरिक रूप से स्वस्थ हो” नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजायाप्ता न हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न हो।
- (ट). अलग—अलग पदों के लिए अलग—अलग आवेदन करना हैं। संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह से सही—सही भरकर रख हस्ताक्षरित फोटो आवेदन के साथ चिपकाएं तथा आवेदन के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा रख पता लिखा हुआ लिफाफा 22 रूपये के टिकट के साथ आवेदन निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट अथवा हाथों—हाथ जिला नियोजनालय, खगड़िया पुरानी कचहरी, विस्कोमान गोदाम रोड कृष्णपुरी बलुआही वार्ड नं—24 के पते पर भेजे।
- (ठ). आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20.09.2024 संध्या 05:00 बजे तक है। उक्त तिथि और समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- (ड) आवेदक को आवेदन के साथ प्रारूप— A (संलग्नक-V) को भर कर जमा करना अनिवार्य है।

## 5. आवश्यक दस्तावेज़ :-

- (क) ऑफिस क्लर्क पद के लिए दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है :-
- उम्र प्रमाण हेतु दसवी का मार्कशीट या उत्तीर्णता प्रमाण—पत्र संलग्न करे।
  - जाति प्रमाण पत्र।
  - चरित्र प्रमाण पत्र।
  - स्नातक का अंक पत्र।
  - स्नातक का प्रमाण पत्र।
  - यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ADCA/DCA/KYP या न्यूनतम 03 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कोर्स किया हो तो उसका प्रमाण—पत्र।
  - यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी अथवा हिन्दी टाइपिंग का कोर्स किया हो तो उसका प्रमाण—पत्र।
  - यदि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से न्यूनतम एक वर्ष का लिपिकीय पद पर कार्य किया है तो उसका अनुभव प्रमाण—पत्र।
- (ख) रिसेप्सनिस्ट—कम—डाटाइन्फ्री ऑपरेटर पद के लिए दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है :-
- उम्र प्रमाण हेतु दसवी का मार्कशीट या उत्तीर्णता प्रमाण—पत्र संलग्न करे।
  - जाति प्रमाण पत्र।
  - चरित्र प्रमाण पत्र।
  - स्नातक का अंकपत्र।
  - स्नातक का प्रमाण पत्र।
  - यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ADCA/DCA/KYP या न्यूनतम 03 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कोर्स किया होतो उसका प्रमाण—पत्र।
  - यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी अथवा हिन्दी टाइपिंग का कोर्स किया हो तो उसका प्रमाण—पत्र।

viii. यदि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से न्यूनतम एक वर्ष का रिसेप्सनिस्ट-कम-डाटा इन्फ्री ऑपरेटर पद पर कार्य किया है तो उसका अनुभव प्रमाण-पत्र।

(ग) ऑफिस प्लून / मुंशी / अटेन्डेंट

- i. दसवीं पास मार्कशीट।
- ii. दसवीं पास का प्रमाण-पत्र।
- iii. जाति प्रमाण पत्र।
- iv. चरित्र प्रमाण पत्र।

6. चयन प्रक्रिया का आधार :-

विभिन्न पदों के लिए प्रकाशित रिक्त अधिसूचना में ऑफिस क्लर्क एवं रिसेप्सनिस्ट-कम-डाटा इन्फ्री ऑपरेटर के पद पर प्रथम स्तर पर जिला नियोजनालय, खगड़िया द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनके स्नातक में प्राप्त अंको एवं अन्य ऐच्छिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर की जाएगी एवं कार्यालय अनुसेवक (मुंशी / परिचारक) के पद पर प्रथम स्तर पर जिला नियोजनालय, खगड़िया द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में आये प्राप्तांक के आधार पर की जायेगी। उपर्युक्त पदों पर कुल रिक्त का पॉच गुणा अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। इसके उपरान्त अतिम चयन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया द्वारा किया जायेगा।

**प्रमाण—पत्रो के आधार पर अंको का भारित अनुपात (Weightage Ratio) निम्नवर्णित है :-**

**(क) पद का नाम :—ऑफिस कलर्क**

- i. स्नातक :— 70% भारित अनुपात (Weightage Ratio)  
स्नातक में प्राप्तांको का वर्गीकरण—
 

➤ 80% या इससे अधिक प्राप्तांक होने पर—	70 अंक
➤ 70% या इससे अधिक एवं 80% से कम प्राप्तांक होने पर—	60 अंक
➤ 60% या इससे अधिक एवं 70% से कम प्राप्तांक होने पर—	50 अंक
➤ 50% या इससे अधिक एवं 60% से कम प्राप्तांक होने पर—	40 अंक
➤ 40% या इससे अधिक एवं 50% से कम प्राप्तांक होने पर—	30 अंक
➤ 30% या इससे अधिक एवं 40% से कम प्राप्तांक होने पर—	20 अंक
- ii. अभ्यर्थियों के पास हिन्दी में न्यूनतम 30 एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30 की गति से संबंधित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत टंकन प्रमाण—पत्र।— 10 अंक
- iii. अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत ADCA/DCA/KYP या न्यूनतम 03 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण—पत्र। 10 अंक
- iv. अभ्यर्थियों के पास सरकारी / किसी भी मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से न्यूनतम एक वर्ष का लिपिकीय कार्य का अनुभय। 10 अंक

**(ख) पद का नाम : रिसेप्शनिस्ट—कम—डाटा इन्फ्री ऑपरेटर**

- i. स्नातक :— 70% भारित अनुपात (Weightage Ratio)  
स्नातक में प्राप्तांको का वर्गीकरण—
 

➤ 80% या इससे अधिक प्राप्तांक होने पर—	70 अंक
➤ 70% या इससे अधिक एवं 80% से कम प्राप्तांक होने पर—	60 अंक
➤ 60% या इससे अधिक एवं 70% से कम प्राप्तांक होने पर—	50 अंक
➤ 50% या इससे अधिक एवं 60% से कम प्राप्तांक होने पर—	40 अंक
➤ 40% या इससे अधिक एवं 50% से कम प्राप्तांक होने पर—	30 अंक
➤ 30% या इससे अधिक एवं 40% से कम प्राप्तांक होने पर—	20 अंक
- ii. अभ्यर्थियों के पास हिन्दी में न्यूनतम 30 एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30 की गति से संबंधित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत टंकन प्रमाण—पत्र।— 10 अंक
- iii. अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत ADCA/DCA/KYP या न्यूनतम 03 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण—पत्र। 10 अंक

iv. अध्यर्थियों के पास सरकारी / किसी भी मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से न्युनतम एक वर्ष का रिसेप्शनिस्ट अथवा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के कार्य का अनुभव।

10 अंक

(ग) पद का नाम :- ऑफिस प्लॉन/मुंशी/अटेन्डेंट

i. दसवीं मे प्राप्त अंक के आधार पर

7. उम्र सीमा :-

क्र०सं०	पद का नाम	वर्ग	न्युनतम उम्र सीमा (वर्ष में)	अधिकतम उम्र सीमा (वर्ष में)
1	ऑफिस कलर्क एवं रिसेप्शनिस्ट-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	अनारक्षित (पुरुष)	21	37
		अनारक्षित महिला	21	40
		पिछङ्गा वर्ग एवं अत्यंत पिछङ्गा वर्ग (पुरुष)	21	40
		अनारक्षित, पिछङ्गा वर्ग एवं अत्यंत पिछङ्गा वर्ग (महिला)	21	40
		अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष)	21	42
		अनारक्षित (पुरुष)	18	37
2	ऑफिस प्लॉन/मुंशी/अटेन्डेंट	अनारक्षित महिला	18	40
		पिछङ्गा वर्ग एवं अत्यंत पिछङ्गा वर्ग (पुरुष)	18	40
		अनारक्षित, पिछङ्गा वर्ग एवं अत्यंत पिछङ्गा वर्ग (महिला)	18	40
		अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष)	18	42

## आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम : .....

1. आवेदक का नाम : .....

2. पिता/पति का नाम : .....

3. स्थाई पता (पिन कोड सहित) .....

4. वर्तमान पता : .....

5. शैक्षणिक योग्यता : .....

आवेदक का  
स्वहस्ताकृत  
पासपोर्ट साइज  
का फोटो

उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	विधालय/महाविधालय का नाम	प्राप्तांक	प्रतिशत

6. अन्य योग्यता : .....

7. आवेदक का जन्मतिथि : ..... / ..... / .....

8. आवेदक का दिनांक—01.08.2024 को उम्र : .....

9. आवेदक की राष्ट्रीयता : .....

10. आवेदक का लिंग : पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर : .....

11. आवेदक की कोटि : सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (जाति प्रमाण—पत्र संलग्न करे)

12. नियोजनालय का नाम एवं पंजीकरण संख्या : .....

13. क्या आवेदक किसी सरकारी सेवा अथवा प्राइवेट सेवा में कार्यरत है— हॉ/नहीं (यदि हॉ तो प्रमाण—पत्र संलग्न करे)

14. क्या आवेदक के विरुद्ध पहले कोई मुकदमा चला है अथवा वर्तमान में मुकदमा चल रहा है : हॉ/नहीं (यदि हॉ तो इसका व्यौरा संलग्न करे)

15. क्या आवेदक Medically fit है (चिकित्सा प्रमाण—पत्र संलग्न करे)

### उद्धोषणा

मैं एतद द्वारा यह धोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ एवं संलग्न प्रमाण पत्र सही हैं और कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :

तिथि :

आवेदक का हस्ताक्षर

**FORM- A**

मैं ..... यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं है।

(यदि आपराधिक मामला लंबित है तो नहीं को काट दें एवं वैसे मामलों की विवरणी नीचे दिये गये तालिका मे भर कर दें।)

वाद (केस) सं०	दण्डात्मक प्रावधान	स्तर लंबित/समाप्त	अभ्युक्ति

Rana Amit Kumar  
11/09/24

जिला नियोजन पशाधिकारी  
खगड़िया।

जिला नियोजन पशाधिकारी  
खगड़िया।